

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य-16.02.2021

थाना रोजा व एसओजी की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी।

थाना क्षेत्र रौजा में खन्नोत नदी के किनारे अफजान की हुई हत्या का किया खुलासा, पुलिस मुठभेड में 05 हत्यारों को किया गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल तमंचा मय खोखा कारतूस, मोबाइल सहित 03 अदद अवैध तमंचे मय 09 अदद जिन्दा व 09 अदद खोखा कारतूस बरामद, सट्टे के पैसे मांगने को लेकर बुलाकर की थी गोली मारकर हत्या ।

दिनांक 13.02.21 को मो0 सरताज पुत्र मो0 फारुक नि0 गढीगाडीपुरा थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर द्वारा थाना रौजा पर लिखित तहरीर दी कि उनका पुत्र अफजान दिनांक 12.02.21 को घर से कहीं चला गया है जिसको तलाश करते हुये वह जब खन्नोत नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ अफजान की मो0सा0 मिली तथा कुछ दूरी पर उनका पुत्र मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना पर थाना रौजा पर मु0अ0स0 60/2021 धारा 147,148,149,302,201 भादवि पंजीकृत किया गया।

हत्या की इस जघन्य घटना पर श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा अन्य अधिकारीगण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर निरीक्षण करते हुये श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण तथा श्री महेन्द्र सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन व दिनेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रौजा के नेतृत्व में थाना रौजा पुलिस एवं रोहित सिंह प्रभारी एस.ओ.जी. की संयुक्त टीम का गठन करते हुये हत्या की घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र हेतु गिरफ्तारी हेतु कड़े दिशा निर्देश दिये गये , प्रतिदिन की मानटरिंग की जाने लगी।

इसी क्रम में दिनांक 16.02.21 को थाना रोजा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थी कि मुखविर खास द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 13.02.21 को खन्नोत नदी के किनारे हुई अफजान की हत्या के अभियुक्त नेपाल भागने की फिराक में है यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान रिंगरोड सल्ललिया गाँव को जाने वाले रास्ते की मोड पर जब पुलिस टीम पहुँची तो कुछ लोगों तेज चाल में जा रहे थे पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया, पुलिस टीम द्वारा सिखलागये तरीके से बड़ी ही साहस करते हुये मुठभेड में मोके पर 05 अभियुक्तों को मोहम्मदी रोड सल्ललिया मोड से गिरफ्तार किया गया किया गया , गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा खन्नोत नदी के किनारे हुई अफजान की हत्या कारित करना स्वीकार किया गया तथा उनके कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर,01 अदद तमंचा 12 बोर व 07 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ,09 अदद खोका कारतूस 315 बोर बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना रौजा पर मु0अ0स0 61/2021 धारा 147,148,149,307 भादवि0 व मु0अ0सं062/21,63/21,64/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना पर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग अफजान को अच्छी तरह जानते हैं पिछले आईपीएल मैच में हम लोगो द्वारा पैसा लगाया गया था जिसमें 01लाख सत्तर हजार रुपये अफजान ने जीत लिये थे हम लोगो को पैसा देना था जिसे वह बार बार हम लोगो से मांग रहा था न देने पर झगडे की बात करता था इसी बात को लेकर हमलोगो ने फोन से अफजान को खन्नोत नदी के किनारे बुलाकर उसकी हत्या कर शव नदी के किनारे फेक कर हम

लोग भाग गये, आज हम लोग पकडे जाने की वजह से नेपाल जाने की फिराक में थे, गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा मय खोखा कारतूस व मोबाइल बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. रविप्रकाश पुत्र धर्मपाल जाटव निवासी- मो०तारीन गाडीपुरा थाना रामचन्द्रमिशन, जनपद-शाहजहाँपुर
2. गौरव कुमार राठौर पुत्र रामरतन राठौर निवासी मो०तारीन गाडीपुरा थाना रामचन्द्रमिशन जनपद- शाहजहाँपुर
3. सोनू उर्फ भूरे पुत्र रामसहाय नि०ग्राम बाडीगांव थाना रामचन्द्रमिशन जि०शाहजहाँपुर
4. अजय कनौजिया पुत्र रामकुमार कनौजिया नि०मो०तारीन गाडीपुरा बावलीकुंआ थाना रामचन्द्रमिशन जि०शाह०
5. सचिन कुमार पुत्र स्व०विनोद कुमार नि० मो०तारीन गाडीपुरा थाना रामचन्द्रमिशन जनपद- शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

दो अदद तमन्चा 315 बोर, एक अदद तमंचा 12 बोर व सात अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर , नौ अदद खोका कारतूस 315 बोर (अभि०गण की निशांदेही पर हत्या मे प्रयुक्त तमंचा व खोखा कारतूस व मोबाइल भी बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1. प्र०नि०दिनेश कुमार शर्मा
2. व० उप-निरीक्षक श्रीदिलीप कुमार यादव
3. उ०नि०श्रीअनित कुमार
4. उ०नि०श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह
5. हे०का०333अनूप कुमार मिश्रा
6. का०1019रघुराज
7. का०मोहित
8. का०56तरुण सिंह
8. उ०नि०श्री रोहित सिंह एसओजी प्रभारी
9. हे०का०329राजारामपाल सिंह एसओजी
10. हे०का०157 उदयवीर सिंह एसओजी
11. का०264ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह एसओजी
12. का०1475 अजय कुमार एसओजी
13. का०1855 कुशलपाल एसओजी
14. का०अजय चौधरी सर्विलांस
15. का०संजीव कुमार सर्विलांस